

ELNET TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: TS 140, Block 2 & 9, Rajiv Gandhi Salai, Taramani, Chennai - 600 113.
Ph: 044-2254 1337 / 1098 Fax: 044-2254 1955 Email : elnetcity@gmail.com Website: www.elnettechnologies.com CIN: L72300TN1990PLC019459

		(Quarter Ende	t	Six Mont	hs Ended	Year Ended	
SI. No.	Particulars	September 30, 2022	June 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022	
			Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	737.25	721.96	670.85	1,459.21	1,356.12	2,722.50	
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	479.53	447.87	440.49	927.39	890.67	1,693.62	
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	479.53	447.87	440.49	927.39	890.67	1,693.62	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	413.00	342.25	332.08	755.24	673.98	1,261.35	
5	Other comprehensive income (net of tax)	0.61	-	0.53	0.61	0.53	83.28	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period							
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	413.61	342.25	332.61	755.85	674.51	1,344.63	
7	Equity Share Capital (face value of Rs.10 per share)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the							
	Audited Balance Sheet of the previous year	-		-			10,573.85	
9	Earning per share (Rs) (not annualised expect for the year ended March 2019)				•			
	a. Basic	10.32	8.56	8.30	18.88	16.85	31.53	
	b. Diluted	10.32	8.56	8.30	18.88	16.85	31.53	

The above quarterly results for the quarter and six months ended 30th September, 2022 were reviewed by the Audit committee and has been approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th November, 2022 and have been subjected to Limited Review by the Statutory auditors of the Company.

The company is engaged in the sole activity of carrying on the business of 'Promotion and Maintenance of Software Technology Park" and therefore, has only one reportable segment in accordance with Ind AS 108 "Operating Segments". Hence, no separate segment reporting is applicable to the company.

The Company has assessed the impact of pandemic on its financial results based on the internal and external information available upto the date of approval of these financial results and cts to recover the carrying value of the assets.

The Board of Directors at its meeting held on August 05, 2022 had declared a dividend of Rs. 2 per equity share, approved by the shareholders at the 31" Annual General Meeting, Previous year/period's figures have been regrouped/recast, wherever necessary, to confirm to the classification of the current year/period's classification

The above is an extract of the detailed format of Unaudited financial results for the quarter and six months ended September 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and six months ended unaudited financial results are available on the websites of Stock Exchange www.bseindia.com and also on the Company's website www.elnettechnologies.com.

For and on behalf of the Board Mrs. Unnamalai Thiagarajan Place : Chennai Managing Director Date: 11th November, 2022 (DIN:00203154)



Graphite India Limited

Regd. Office: 31, Chowringhee Road, Kolkata - 700 016 Telephone No: 91 33 40029600; Fax No: 91 33 40029676 Email Id: gilro@graphiteindia.com; Website: www.graphiteindia.com CIN: L10101WB1974PLC094602

Extract of Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 (₹ in Crores)

Standalone Consolidated Quarter ended Half Year ended Quarter ended Quarter ended Half Year ended Quarter ended **Particulars** No 30th 30th 30th 30th September September 2022 2022 2021 2022 2022 2021 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total Income from Operations 823 1,604 722 936 1,788 771 2 Net Profit/(Loss) for the period/year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 194 278 181 194 237 171 3 Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 194 278 181 149 192 171 4 Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or 139 202 140 92 128 Extraordinary items) 116 Total Comprehensive Income for the period/vear [Comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 139 202 140 87 107 116 6 Equity Share Capital 39 39 39 39 39 39 Other Equity 8 Earnings/(Loss) Per Share (EPS)

Diluted EPS (₹)

(of ₹ 2/- each)

Basic EPS (₹)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com/ www.bseindia.com) and on the Company's website (www.graphiteindia.com).

10.39

10.39

7.19

7.19

4.72

4.72

7.13

7.13

By Order of the Board For Graphite India Limited K. K. Bangur Chairman

DIN: 00029427

5.95

5.95

6.55

6.55

Date: 11th November, 2022



GAYATRI HIGHWAYS LIMITED

Regd office: 1st Floor, TSR Towers, 6-3-1090, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082, Telangana Tel: 040-23310330 / 4284, Fax: 040-2339 8435 Email: cs@gayatrihighways.com Web: www.gayatrihighways.com CIN: L45100TG2006PLC052146

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

(Rs. in Lakhs, unless specified)

		Standalon	ie		Consolidated				
SL NO	PARTICULARS		Half Year (6m) ended 30/09/2022		For the year ended 31/03/2022	Quarter (3m) ended 30/09/2022	Half Year (6m) ended 30/09/2022	Quarter (3m) ended 30/09/2021	For the year ended 31/03/2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	716.44	1,374.19	315.20	983.68	3,356.72	6,497.56	2,499.49	9,532.93
2	Net loss for the period before tax#	(172.37)	(239.49)	(349.08)	(1,507.03)	(7,678.72)	(14,750.00)	(5,900.22)	(29,745.36)
3	Net loss for the period after tax #	(172.37)	(239.49)	(349.08)	(1,507.03)	(7,678.72)	(14,750.00)	(5,900.22)	(29,745.36)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(172.37)	(239.49)	(349.08)	(1,507.03)	(8,794.12)	(16,006.06)	(6,351.20)	(14,149.87)
5	Equity share capital	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04
6	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year				11,717.79		•		(104,331.96)
7	Earnings Per Share(of Rs.2/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic and Diluted (not annualized the quarterly and half yearly data)	(0.07)	(0.10)	(0.15)	(0.63)	(3.67)	(6.68)	(2.65)	(5.90)

#-There were no exceptional and/or extraordinary items during the quarter and half year ended 30th September 2022.

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results is available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com (BSE), www.nseindia.com (NSE) and on the company's website at www.gayatrihighways.com

b) The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee on 11th November 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th November 2022.

For and on behalf of the Board of Directors **GAYATRI HIGHWAYS LIMITED**

K.G.Naidu M.V.Narasimha Rao

Director Chief Executive Officer DIN:06761474

Place: Hyderabad Date: 11th November 2022

MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED

CIN: L70200MH2002PLC136849

Reg. Office: 12th Floor, Krushal Commercial Complex, G M Road, Chembur (West), Mumbai 400 089 Tel: +91 22 42463999, Fax: +91 22 25251589, E-mail: investors@maninfra.com, Website: www.maninfra.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2022

(₹ in Lakhs) Year Ended on **Ouarter Ended** Half Year Ended June 30, March **Particulars** 30, 2022 30, 2021 30, 2022 30, 2021 31, 2022 2022 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations (Net) 41.391.34 36,002.97 42.294.90 77.394.31 58.286.13 1.16.265.49 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, 8,990.58 5.801.56 23,318.65 29.028.7 37,888.88 14,792.14 Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit/(Loss) for the period before tax 8.990.58 5.801.56 23.318.65 14.792.14 29.028.74 37.888.88 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax and 5,328.00 3.894.21 11,134.66 9,222.21 14,417.82 21.635.44 non controlling interest (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 5.479.15 4.216.47 11,124.10 9.695.62 14.402.24 21,548.79 [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax and non controlling interest) and Other Comprehensive Income (after tax)] 7.425.01 7,425.01 4.950.01 7.425.0 4.950.0 7,425.01 Equity Share Capital (Face Value per Share of ₹ 2/- each) Earnings Per Share (Face Value of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) Not annualised Basic (in ₹) 1.43 1.05 3.00 2.48 3.88 5.83 2. Diluted (in ₹) 1.43 1.05 3.00 2.48 5.83

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meeting held on November 10, 2022. The Consolidated Financial Results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013
- The Board of Directors, in their meeting held on November 10, 2022, have declared an interim dividend of ₹ 0.90 per equity share for the
- The above is an extract of the detailed format of Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange Websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's Website www.maninfra.com.

Key data relating to Standalone Unaudited Financial Results of the Company are as follows

	Quarter Ended		Half Yea	Year Ended on	
September 30, 2022	June 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022
Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
16,219.01	10,937.57	7,317.76	27,156.58	14,217.11	31,190.02
6,341.83	4,556.96	3,376.71	10,898.79	6,860.33	13,120.43
5,472.24	3,474.38	2,982.18	8,946.62	5,708.93	10,563.66
	30, 2022 Unaudited 16,219.01 6,341.83	September 30, 2022 June 30, 2022 Unaudited Unaudited 16,219.01 10,937.57 6,341.83 4,556.96	September 30, 2022 June 30, 2022 September 30, 2021 Unaudited Unaudited Unaudited 16,219.01 10,937.57 7,317.76 6,341.83 4,556.96 3,376.71	September 30, 2022 June 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2021 Unaudited Unaudited Unaudited 16,219.01 10,937.57 7,317.76 27,156.58 6,341.83 4,556.96 3,376.71 10,898.79	September 30, 2022 June 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2021 September 30, 2021 September 30, 2021 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 16,219.01 10,937.57 7,317.76 27,156.58 14,217.11 6,341.83 4,556.96 3,376.71 10,898.79 6,860.33

By order of the Board For Man Infraconstruction Limited

Suketu R Shah

Place: Mumbai Date: November 10, 2022 Joint Managing Director DIN: 00063124

(₹ in Lakhs)



NAYARA ENERGY LIMITED

Registered Office: Khambhalia, Post Box No. 24, Dist. Devbhumi Dwarka - 361305, Gujarat, India. Corporate Identity Number: U11100GJ1989PLC032116

STATEMENT OF STANDALONE FINAN QUARTER ENDED SEPTEI			THE
			(₹ in m
	Quart	er ended	Year e

				(₹ in million)		
		Quart	Quarter ended			
Sr. No.	Particulars	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations	3,70,392	2,93,744	11,96,894		
2	Net Profit / (Loss) for the period					
	(before Tax, Exceptional items)	23,982	(1,125)	13,490		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	23,982	(1,125)	13,490		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	17,934	(908)	10,299		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (loss) (after tax)]	11.639	(624)	10.631		
6	Paid up Equity Share Capital	15,072	15,072	15,072		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	39,962	(19,638)	(3,543)		
8	Securities Premium Account	78.014	78.014	78,014		
9	Net worth (Equity share capital + Other equity)	2.60,233	2,02,562	2,17,482		
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	90,990	1,03,539	82,919		
11	Outstanding Redeemable Preference Shares		· · ·			
12	Debt Equity Ratio (number of times)	0.35	0.51	0.38		
13	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)					
	1. Basic (in ₹) :	12.03	(0.61)	6.91		
	2. Diluted (in ₹) :	12.03	(0.61)	6.91		
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-		
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-		
16	Debt Service Coverage Ratio (number of times)	6.38	1.28	1.98		
17	Interest Service Coverage Ratio (number of times)	8.00	2.22	3.22		

Notes:

November 11, 2022

. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

Directors at their respective meetings held on November 11, 2022. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stor Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stoci Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.nayaraenergy.con

> For and on behalf of Board of Directors Alois Virag Prasad K. Panicker Chairman & Head of Refinery Chief Executive Officer DIN: 06476857 Mumbai



MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821

Regd. Off.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001

website: www.mirza.co.in: e-mail: compliance@mirzaindia.com Tel.: +91512 2530775

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 (Rs. in Lakh except per share data)

Standalone Consolidated Half Year Half Year Half Year Half Year Year Year Ouarter Ouarter Ouarte: Quartei **Particulars** ended 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1 Total Income from Operations 48282.51 40358.57 96643.31 65523.69 167726.36 48468.42 40358.71 97056.60 65623.21 168438.98 2 Net Profit/(Loss) for the Period (before tax, 4328.99 3378.46 9713.57 4889.08 14941.56 4449.42 3380.93 9971.92 4941.43 15351.18 4328.99 3378.46 9713.57 4889.08 14941.56 4453.81 3377.46 9978.38 4937.06 15342.81 7191.57 3191.99 2681.46 3808.08 11043.68 3273.70 2672.10 7374.62 3827.46 11285.95

Exceptional and/or Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 3726.35 2566.06 8450.16 4033.03 11386.88 3783.02 2556.69 8584.25 4051.84 11633.83 [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)] 6 Equity Share Capital 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 2406.12 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 73087.16 73561.72 as shown in the Balance sheet of the previous year Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing & discontinued operations) 1. Basic: 2.65 3.17 9.18 3.18 9.38 2.23 5.98 2.72 2.22 6.13

2. Diluted:

1) The above Standalone and Consolidated Ind AS Unaudited Financial Results were reviewed by Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held November 11, 2022.

3.1

9.18

2.72

5.98

The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter and Half Year ended on September 30, 2022. 2) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on

Company's website at www.mirza.co.in. 3) The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company) and Subsidiaries (WOS) Mirza (H.K.) Limited, Mirza Bangla Limited and Redtape Limited and its controlled entity Sen en

Mirza Industrial Supply Chain LLP are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. 4) Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary in order to make them comparable.

2.65

2.23

For Mirza International Limited Sd/

6.13

(Shuja Mirza) Whole Time Director (DIN 01453110)

9.38

Date: 11.11.2022 Place: Noida

शीर्ष बिजनेस स्कूलों में समर प्लेसमेंट

बिजनेस स्कूल में बरसा पैसा



विनय उमरजी

श के शीर्ष बिजनेस स्कूलों (बी- स्कूल) के छात्रों के समर इंटरनशिप प्लेसमेंट के स्टाइपंड ँमें खासी बढ़ोतरी हुई है। कुछ स्कूलों के छात्रों के मानदेय में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। छात्रों के अंतिम प्लेसमेंट से पहले समर इंटरनशिप होती है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) इंदौर के समर इंटरनशिप प्लेसमेंट में 140 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस संस्थान में सबसे अधिक मानदेय बीते साल की तुलना में 50 फीसदी बढ़ोतरी के साथ छह लाख रुपये रहा। आईआईएम के छात्रों के लिए दो महीने के लिए औसत मानदेय 2.74 लाख रुपये रहा। इसमें बीते साल की अपेक्षा 37 फीसदी इजाफा हुआ। हालांकि बी स्कूलों में सबसे अधिक मानदेय आईआईएम कोझिकोंड के एक छात्र को 6.47 लाख रुपये मिला। हालांकि बीते साल की तुलना में इस संस्थान का औसत मानदेय 25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2.5 लाख रुपये रहा।

उधर दिल्ली की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) में दो महीने के लिए रिकार्ड औसत मानदेय 3.02 लाख रुपये रहा। इस संस्थान में साल 2022-24 के पाठ्यक्रम के लिए सबसे अधिक मानदेय 4.4 लाख रुपये रहा। आईआईएम लखनऊ के 2022-24 पाठ्यक्रम के पीजीपी और पीजीपी-एबीएम पाठ्यक्रम के लिए क्रमश 1.41 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये प्रति माह औसत रिकार्ड मानदेय रहा। इस संस्थान में सर्वाधिक मानदेय 3.50 लाख प्रति माह रहा। इस संस्थान के 38 साल के इतिहास में सबसे बड़े बैच को 100 फीसदी प्लेसमेंट मिला। इस बैच के 566 छात्रों को 570 ऑफर मिले।

समर प्लेसमेंट में सबसे ऊपर परामर्श (कंसल्टिंग) क्षेत्र रहा। इसके बाद वित्तीय सेवाएं, आईटी, सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र रहे। दिल्ली एफएमएस में परामर्श और रणनीति (कंसिल्टिंग और स्ट्रेटजी) के क्षेत्र में सर्वाधिक

नियुक्तियां हुईं। इसमें प्रमुख तौर पर

एक्सेंचर स्ट्रेटजी, बेन एंड कंपनी, बीसीजी, अर्नेस्ट ऐंड यंग, किर्नी,

केपीएमजी. मैकिन्जी ऐंड कंपनी. प्राइसवाटरहाउस कपर्स, रेडसियर

कंसिल्टिंग और सिनर्जी कंसिल्टिंग ने 29

फीसदी नियुक्तियां कीं। इसके बाद बिक्री

व विपणन (26 फीसदी), उत्पाद प्रबंधन व विश्लेषण (17 फीसदी),

बीएफएसआई (15 फीसदी) और

सामान्य प्रबंधन भूमिकाओं के लिए

(13 फीसदी) छात्रों की नियक्तियां हुईं।

आईआईएम इंदौर में ऑफर दिए। इस

संस्थान को 25 फीसदी प्रस्ताव परामर्श

क्षेत्र से मिले। इनमें प्रमुख कंपनियां

एक्सेंचर स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, बेन ऐंड

कंपनी, बोस्टन कंसस्टिंग ग्रुप, डेलॉयट

इंडिया, ईवाई इंडिया, केपीएमजी,

मैकिन्जी ऐंड कंपनी, पीडब्ल्यसी इंडिया,

पीडब्ल्यसी यएस एडवाइजरी, रेडसियर

नियोक्ताओं ने बिक्री व विपणन के

क्षेत्र में 23 फीसदी ऑफर दिए। इनमें एबी इनबेव इंडिया, आदित्य बिड्ला

फैशन ऐंड रिटेल लिमिटेड, डिज्नी

स्टार, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज, गुगल,

हिंदस्तान, यनिलीवर लिमिटेड.

आईटीसी, पेप्सिको, प्रॉक्टर ऐंड गैम्बल,

प्यूमा, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, टाटा

कंज्युमर प्रोडक्ट्स और द कोका कोला कंपनी प्रमुख थीं। संस्थान में तीसरे

नंबर पर वित्त के क्षेत्र से ऑफर आए थे। संस्थान में वित्त क्षेत्र में 16 फीसदी

ऑफर आए थे। इनमें प्रमुख नियोक्ता सिटी ग्रुप, क्रेडिट सुइस, क्रिसिल, द डी. ई. शॉ ग्रुप, डॉयचे बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, जेपी

आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांश राय ने कहा कि बड़े व महत्वपूर्ण नियोक्ताओं ने समर इंटरनशिप मुहैया करवाई है। उन्होंने कहा, 'नियोक्ताओं ने हम पर भरोसा जताया है। संस्थान सर्वश्रेष्ठता के लिए प्रतिबद्ध है।

आईआईएम अहमदाबाद कलस्टर पर आधारित समर इंटरनशिप महैया करवाता है। पहले कलस्टर में निवेश बैंकिंग व मार्केट, प्रबंधन परामर्श, निश कंसिल्टिंग, कार्ड ऐंड फाइनैनिशयल एडवाइजरी ऐंड प्राइवेट इक्विटी, पुंजी व संपत्ति प्रबंधन हैं। पहले कलस्टर में 60 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें बोस्टन कंसिल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) सबसे बड़ा नियोक्ता रहा और उसने 28 ऑफर दिए। इसके बाद आईआईएम अहमदाबाद में बेन ऐंड कंपनी ने

आईआईएम कोझिकोड में 122 नियोक्ताओं ने रुचि दिखाई और 541 छात्रों को विभिन्न ऑफर दिए। कोझिकोड के निदेशक देबाशिष चक्रवर्ती ने कहा. 'इस प्लेसमेंट की खासियत निजी प्रतिभित और फंड प्रबंधन कंपनियों की भागीदारी थी। प्लेसमेंट के परिणाम शैक्षणिक क्षमताओं. विविधीकृत छात्र समुदाय और आईआईएम कोझिकोड की सर्वश्रेष्ठता के लक्ष्य के प्रयासों में विश्वास व्यक्त करते हैं।' आईआईएम लखनऊ के पीजीपी के छात्र व प्लेसमेंट मामलों के चेयरमैन प्रेम प्रकाश दीवानी ने बताया कि 'अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति' के बावजूद संस्थान के समर इंटरनशिप

मार्गेन चेज ऐंड कंपनी, मार्गेन स्टेनली, यस बैंक आदि रहे।

आईआईएम इंदौर उद्योग से गठजोड़ को और मजबत करेगा।

कंसिल्टिंग और सिनर्जी कंसिल्टिंग हैं।

परामर्श क्षेत्र की नामचीन कंपनियों ने

मानदेय में हुआ खासा इजाफा

- आईआईएम कोझिकोड को रिकार्ड सर्वाधिक मानदेय 6.47 लाख रुपये मिला
- आईआईएम कोझिकोड का औसत मानदेय 25 फीसदी की बढोतरी के साथ 2.5 लाख रुपये
- आईआईएम इंदौर का औसत मानदेय 37 फीसदी बढ़कर 2.74 लाख रुपये
- दिल्ली के एफएमएस में अधिकतम मानदेय ४.४ लाख
- दिल्ली के एफएमएस का औसत मानदेय 13 फीसदी बढकर 3.02 लाख रुपये
- आईआईएम लखनऊ का औसत मासिक मानदेय 1.41 लाख रुपये जबकि सर्वाधिक 3.50 लाख रुपये

23 ऑफर दिए।

उड़ीसा बंगाल कैरियर लिमिटेड CIN: L63090CT1994PLC008732

Orissa Bengal

पंजीकृत कार्यालयः जीवन बीमा मार्ग, पंडरी रायपुर (छ.ग.) 492001, कॉर्पोरेट ऑफिस: ए-1, तीसरी मंजिल, सीजी एलीट कॉम्प्लेक्स, मंडी गेट के सामने, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001 वेबसाइट: www.obclimited.com, ईमेल : cs@obclimited.com | दूरभाष: +91-771 2281324 / 0771-4054518

30.09.2022 को समाप्त तिमाही और अर्ध वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

	Danne	एकल (स्टैंडअलोन)								
क्र.	विवरण		समाप्त तिमाही	\-\(\(\)	समाप्त	समाप्त वर्ष				
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022			
1	प्रचालनो से कुल आय	10320.27	9111.39	6169.75	19431.66	14910.81	30644.66			
2	अवधि के लिए निवल लाभ (कर से पूर्व)	433.54	414.95	222.87	848.49	520.34	1061.79			
3	अवधि के लिए निवल लाभ (कर के पश्चात)	324.31	312.99	162.74	637.30	381.38	783.16			
4	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरात) के लिए लाभ तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित)]	324.31	312.99	162.74	637.30	381.38	783.59			
5	इक्विटी शेयर पूंजी	021.01	012.00	2108						
6	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट में दर्शायी गयी है	6092.91								
7	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य ₹10 / - प्रत्येक)									
I)	मूल ईपीएस (₹ में)	1.54	1.48	0.77	3.02	1.81	3.71			
II)	तनुकृत ईपीएस (₹में)	1.54	1.48	0.77	3.02	1.81	3.71			
ਟਿਪ	रिप्पणी: उपर्यक्त परिणाम सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के									

पास दायर तिमाही और अर्ध वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटो vww.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.obclimited.com पर भी उपलब्ध है।

कृते, उड़ीसा बंगाल कैरियर लिमिटे दिनांक : 12.11.2022 एसडी/- रवि अग्रवाल स्थान : रायपुर प्रबंध निदेशक, डिन: 01392652

🔁 इंडिया एक्ज़िम बैंक India Exim Bank **EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA**

Head Office: Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005 Tel: (022) 22172619, 22172628, 22172692 Fax: (022)-22182497 Website: www.eximbankindia.in

•	- · · ·	0 1 1 1			₹ in crore
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30-09-2022	Quarter ended 30-09-2021	Half Year ended 30-09-2022	Year ended 31-03-2022
1	Total Income from Operations	2,421.24	1,939.34	4,527.80	7,976.38
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	849.39	215.89	1,162.74	2,149.75
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	849.39	215.89	1,162.74	2,149.75
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	615.63	301.00	855.53	737.65
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	NA	NA	NA	NA
6	Paid up Equity Share Capital	15,909.37	15,909.37	15,909.37	15,909.37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,318.22	2,654.32	3,318.22	3,318.22
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	NA
9	Net worth	19,227.59	18,563.69	19,227.59	19,227.59
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	NA	NA	NA	NA
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	6.13:1	5.76:1	6.13:1	5.59:1
13	Earnings Per Share (of Rs/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	NA	NA	NA	NA
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	N/
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA NA	N/

Notes:

- 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on November 09, 2022, and subsequently noted by Board of Directors at its meeting held on November 11, 2022. The same have been subjected to "Limited Review" by the Bank's
- 2. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the detailed format of the detathe LODR Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Bank's websites (https://www.eximbankindia.in/investor-relations) and on the website of NSE (https://www.nseindia.com)
- 3. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to NSE and can be accessed on (https://www.nseindia.com)

For and on hehalf of the Board of Directors

Harsha Bangari Place: Mumbai Date: November 11, 2022 Managing Director and CEO

LA OPALA RG LIMITED

CIN: L26101WB1987PLC042512

Regd. Office: Eco Centre, 8th Floor, EM - 4, Sector - V, Kolkata - 700091 Phone No.: +91 76040 88814/5/6/7, Email: info@laopala.in, www.laopala.in

Public Notice To The Shareholders of La Opala Rg Limited

This public announcement is being made in compliance with Regulation 6(c) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as 'Delisting Regulations') to the shareholders of the Company in respect of voluntary delisting of equity shares of the Company from 'The Calcutta Stock Exchange Limited' ('CSE').

At present the shares of the Company are listed on BSE Limited (BSE), National Stock Exchange of India Ltd (NSE), and The Calcutta Stock Exchange Ltd (CSE). The Board of Directors has, in its meeting held on Friday, November 11, 2022, approved voluntary delisting of equity shares of the Company from CSE due to non trading

The equity shares of the Company shall continue to remain listed on BSE and NSE, which are the recognized stock exchanges and are having nationwide trading terminal.

In case the shareholders have any query or objection in pursuant to this notice, they can email the same on

For and on behalf of La Opala RG Limited

Kanchan P Jaiswal

Company Secretary (Mem. No.-A38107)



7.010	ct of unlaudited illiancial results for	tile qua	tel & liai	ı year en	ucu Joli	Schrein	nei, zozz			
	₹ in lakhs (except per shar									
			Quarter Ended	ı	Half Yea	Year Ended				
S. No.	Particulars	30.09.2022 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)			
1	Total Income	50,881.36	59,197.08	34,203.90	1,10,078.44	52,395.50	1,68,013.44			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,568.24)	2,783.69	(1,945.20)	1,215.45	(5,796.54)	1,039.67			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,568.24)	2,783.69	(1,945.20)	1,215.45	(5,796.54)	1,039.67			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,131.35)	2,045.21	(1,414.48)	913.86	(4,285.90)	1,164.07			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,058.09)	2,029.96	(1,485.54)	971.87	(4,364.65)	977.16			
6	Paid up equity share capital (face value of ₹10 per share each)	1,976.84	1,976.62	1,973.28	1,976.84	1,973.28	1,974.95			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						82,986.85			
	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualized)									
8	(a) Basic (₹)	(5.73)	10.35	(7.05)	4.62	21.62	5.90			
	(b) Diluted (₹)	(5.74)	10.35	(7.05)	4.61	21.62	5.88			

Place: Gurugram

Date: November 11, 2022 Place: Kolkata

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of $quarterly financial\ results\ is\ available\ on\ the\ Stock\ Exchanges\ websites\ -\ www.nseindia.com/www.bseindia.com\ and$ on the Company's Website - www.ymartretail.com

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind -AS') as notified under the the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of the Companies

The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 11th November, 2022

For and on behalf of the Board of Directors of V-Mart Retail Ltd.

Date: 11th November, 2022

Regd. Off. - 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092. Corporate Off. - Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase - V, Gurugram - 122016 Tel. :0124-4640030; Fax : 0124-4640046; Email : info@vmart.co.in;



MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821

Regd. Off.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001 website: www.mirza.co.in; e-mail: compliance@mirzaindia.com Tel.: +91512 2530775

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

Lalit M Agarwal

Managing Director DIN: 00900900

	(Rs. in Lakh except per share of										t per share data)
				Standalone					Consolidated		
S1. No.		Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	48282.51	40358.57	96643.31	65523.69	167726.36	48468.42	40358.71	97056.60	65623.21	168438.98
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	4328.99	3378.46	9713.57	4889.08	14941.56	4449.42	3380.93	9971.92	4941.43	15351.18
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4328.99	3378.46	9713.57	4889.08	14941.56	4453.81	3377.46	9978.38	4937.06	15342.81
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3191.99	2681.46	7191.57	3808.08	11043.68	3273.70	2672.10	7374.62	3827.46	11285.95
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)]	3726.35	2566.06	8450.16	4033.03	11386.88	3783.02	2556.69	8584.25	4051.84	11633.83
6	Equity Share Capital	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12	2406.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet of the previous year					73087.16					73561.72
8	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing & discontinued operations)										
	1. Basic:	2.65	2.23	5.98	3.17	9.18	2.72	2.22	6.13	3.18	9.38
	2. Diluted:	2.65	2.23	5.98	3.17	9.18	2.72	2.22	6.13	3.18	9.38

APPOINTMENTS



प्लेसमेंट में 185 से अधिक नियोक्ताओं ने हिस्सा लिया।'

Email id: lead@cbhfl.com **EMPANELMENT OF PANEL LAWYERS AND VALUERS**

Cent Bank Home Finance Ltd invites application from Legal Advocates / Valuers for empanelment in its branches as panel Advocates & Valuers for Technical valuation.

For more details and applying please visit our websites www.cbhfl.com

Date: 11.11.2022 Place: Noida

Company's website at www.mirza.co.in.

2) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on

1) The above Standalone and Consolidated Ind AS Unaudited Financial Results were reviewed by Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held November 11, 2022.

The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and Half Year ended on September 30, 2022.

3) The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company) and Subsidiaries (WOS) Mirza (H.K.) Limited, Mirza Bangla Limited and Redtape Limited and its controlled entity Sen en

Mirza Industrial Supply Chain LLP are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. 4) Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary in order to make them comparable.

> For Mirza International Limited Sd/ (Shuja Mirza) Whole Time Director (DIN 01453110)